



जनवरी 20, 2018

2018: कल के लिए एक ग्रह

2018 poster of tomorrow के तात्कालिक स्वरूप में दसवा और अंतिम संस्करण है |

2009 से अब तक हमने अपने, अनेक से अधिक शुरुआती लक्ष्य प्राप्त किये | हमने एक ऐसे बड़े डिजाइनर समुदाय की रचना की जो अब सक्रिय रूप से सामाजिक अभिकल्प के साथ सम्बद्ध है | हमने सारी दुनिया के विद्यालय और विश्वविद्यालयों में वाद-विवाद और कार्यशालाएं आयोजित की, और हजारों पोस्टर अपनी प्रतियोगिताओं के माध्यम से अर्जित किये |

पर संभवतः सबसे बड़ा संकेत न कि poster for tomorrow बल्कि मानव अधिकार कतिने आगे आये है, 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की लोकप्रियता से पता चलता है | जब हम इस दिन अपनी वार्षिक प्रदर्शनियों के लोकार्पण के लिए चुना करते थे, तब भी यह एक महत्वपूर्ण दिन था, जिस पर हम महसूस करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बहुत ही कम ध्यान दिया था | अब यह कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में हर साल अधिक से अधिक लोगों द्वारा मनाया जाता है, इस वस्तुस्थिति में हम अपने तुच्छ योगदान के लिए प्रसन्न हैं |

हलाकि poster of tomorrow की सफलता के आनंद के साथ, हमने यह भी देखा हमारे आंदोलन के केंद्र «मानव अधिकार» के मुद्दे की जगह सारा ध्यान हमारी वार्षिक पोस्टर प्रतियोगिता को मिला है | हम नसिंदेह प्रसन्न हैं कि हजारों लोग ग्रव से हमारे मानव अधिकार graphic design प्रतियोगिता के माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन हम मानव अधिकारों को केन्द्र बनाना चाहते हैं न कि प्रतियोगिता को | साथ ही साथ दुनिया बदल रही है और हम इस बदलाव का हिससा बनना चाहते हैं |

अतएव 2018 poster of tomorrow के तात्कालिक स्वरूप में अंतिम संस्करण है |

हम आजकल इस पर काम कर रहे हैं कि 2019 में कैसे विभिन्न साधनों से विकसित हो कि मानव अधिकारों की ओर अधिक ध्यान आकर्षित कर सकें, जो की पहले से कहीं अधिक संकट में है | यदि हम एक ऐसी दुनिया में रहे चाहते हैं जहाँ सब सामान हो, तो दुनिया भर में कार्यक्रम यह दर्शाते हैं कि वाद-विवाद और बातचीत अत्यावश्यक है | 2019 और आगे हमारा लक्ष्य इस बातचीत के जहाँ कहीं और जैसे भी संभव हो आगे ले जाना है |

लेकिन पहले 2018 | पछिले 9 साल के लिए सराहना और भवषिय की तरफ देखते हुए, हमने इस साल का वषिय चुना है जो हम सबके भवषिय को प्रभावित करता है «पर्यावरण». राष्ट्रपति Macron को दुहराते हुए, हम अपने ग्रह को फिर से महान बनाना चाहते हैं |

इसलिए 2019 का वषिय «कल के लिए एक ग्रह» है | इसका सारपत्र February 20 को प्रतियोगी प्रवषिटी के साथ प्रकाशित किया जायेगा | जैसा आपने देखा होगा यह हमारे निर्धारित कार्यक्रम से भिन्न है, जैसे कि हमारी सीधे प्रसारित निर्णायक समिति, और हमारी प्राथमिक प्रदर्शनी की तारीख भी, जो अब इतवार 16 September - अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस के दिन है |

अर्थपूर्ण ढंग से हमने प्रतियोगिता प्रस्तुति 9 से 3 कर दी है | यह प्रतियोगिता के केंद्र में हमारे मूल मुद्दे के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, न कि प्रतियोगिता में अधिक प्रस्तुतिया प्राप्त करने को |

निम्नांकित poster of tomorrow के इस संस्करण की सभी तारीखें, जो आपके लिए आवश्यक है |

महत्वपूर्ण तिथियाँ

20 फरवरी	संछिप्त-वृतांत प्रकाशन/ प्रतियोगिता प्रारम्भ
10 मई	प्रतियोगिता प्रवषिटी की अंतिम तिथि
20 मई	ऑनलाइन निर्णायक समिति
25 जून	सीधे प्रसारित निर्णायक समिति
16 सितंबर	विश्वव्यापी प्रदर्शनी: अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस

संपर्क जानकारी

4tomorrow association
16 Esplanade Nathalie Sarraute - 75018 PARIS
T. +33 14205 8887